

## \*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 18.11.2020 जनपद देवरिया\*

दिनांक 17.11.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

### \*01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-\*

➔थाना बनकटा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.नन्हे कुमार यादव पुत्र मनेजर यादव सा0 ममउर थाना गुठनी सिवान बिहार गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 45 शीशी बण्टी बबली देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.लल्लन यादव पुत्र अवध यादव सा0 कन्डी पट्टी थाना बघौचघाट, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.बाजीकुमार पुत्र स्व0 पूरन सा0 चिला टोला थाना रुद्रपुर, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना भटनी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.कुलदीप पुत्र स्व0 सूर्यनारायण सा0 मोतीपुर भुआल थाना भटनी, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

### \*02. थाना बनकटा पुलिस द्वारा 02 अदद अवैध देशी कट्टा व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-\*

दिनांक 17.11.2020 को थानाध्यक्ष बनकटा के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र मे भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर रामपुर बुजुर्ग के पास से दो व्यक्तियों को 02 अदद अवैध देशी कट्टा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.अरून कुमार पुत्र दहन सा0 भरुथुई थाना मुफस्सिल सिवान बिहार। 02.प्रकाश कुमार पुत्र रामजनम सा0 बासो पाली कोठी थाना सिवान बिहार बताया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 02 अदद अवैध देशी कट्टा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद करते हुये पुलिस द्वारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

### \*03.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-\*

दिनांक 17.11.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है:

➔थाना-कोतवाली मु0अ0सं0 836/20 धारा-354 भादवि 01.विकास प्रसाद पुत्र बाबूलाल सा0 भीमपुर थाना कोतवाली, देवरिया।

➔थाना-कोतवाली मु0अ0सं0 824/20 धारा-354 भादवि व 7/8 पाक्सो ऐक्ट 01.राजीव द्विवेदी उर्फ संजय पुत्र दुर्गाधर सा0 सिसवा थाना कोतवाली, देवरिया।

### \*04. निरोधात्मक कार्यवाही-\*

दिनांक 17.11.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 20 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

**\*05. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-\***

दिनांक 17.11.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शांतिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 141 वाहनों से 136000 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

